

# दीदारगंज में नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़

Publish Date: Mon, 22 Mar 2021 01:35 AM (IST) Author: Jagran

राजधानी से सटे दीदारगंज इलाके के नत्थाचक गाव में रविवार की देर रात नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। हैरत की बात यह है फैक्ट्री घर में बने तहखाने में चलाई जा रही थी।

पटना । राजधानी से सटे दीदारगंज इलाके के नत्थाचक गाव में रविवार की देर रात नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। हैरत की बात यह है फैक्ट्री घर में बने तहखाने में चलाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने घर को घेरकर छापा मारा तो तहखाने में चल रही फैक्ट्री पकड़ी गई। खबर लिखे जाने तक नकली विदेशी शराब (इंपीरियल ब्लू ब्रांड)से भरी बोतलों के डेढ़ सौ कार्टन बरामद किए गए हैं। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विभाग के अनुसार कार्रवाई पूरी होने के बाद घर को सील किया जाएगा।

उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त किशोर कुमार साह के नेतृत्व में रविवार की देर रात छापेमारी की गई। टीम को नकली शराब के साथ ही इसके निर्माण में प्रयोग होने वाली स्प्रिट और एसेंस भी बड़ी मात्रा में मिला है। साथ ही बॉटलिंग और पैकेजिंग की मशीन मिली है। खाली बोतलें और अंग्रेजी ब्रांड के नकली रैपर भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं।

होम डिलीवरी के लिए

कराया जा रहा था तैयार

सहायक आयुक्त के अनुसार, होली को देखते हुए फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में दिन-रात शराब का निर्माण किया जा रहा था। इसे होम डिलीवरी के लिए तैयार कराया जा रहा था। पटना में शराब कारोबारियों की धरपकड़ के लिए प्रशासनिक सख्ती और विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग का सूचना तंत्र सक्रिय है। सूचना तंत्र से ही दीदारगंज में नकली शराब निर्माण की जानकारी उत्पाद की टीम को मिली। टीम ने देर रात नत्थाचक गांव में धावा बोला। वहां जिस घर में शराब का निर्माण हो रहा है उसे आधी रात तक चारों तरफ से घेरकर छापेमारी चल रही है।

कार्रवाई पूरी होने पर दर्ज

की जाएगी प्राथमिकी

सहायक आयुक्त से सवाल किया गया कि मामले में किसी की गिरफ्तारी की गई है तो उन्होंने कहा कि अभी कार्रवाई जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई पूरी होने पर प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले से अवगत कराया जा सकेगा। उत्पाद विभाग के एक सूत्र ने बताया कि शराब की बोतलों और अन्य सामग्री की जब्ती का कार्य पूर्ण कर लेने के बाद शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/patna-city-fake-wine-factory-21486632.html>